



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 376]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 1979/अग्राहायण 9, 1901

No. 376] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 1979/AGRAHAYANA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1979

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

[अधिसूचना सं० 301/79-के० उत्पाद-शुल्क/फा० सं० 51/14/78-  
सी एम्-2]

एस० काक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1979

CENTRAL EXCISE

सं० का० नि० 659(अ)—केन्द्रीय सरकार, प्रतिरिक्त उत्पाद-  
शुल्क (विशेष महत्व के मान) अधिनियम, 1957 (1957 का 58)  
की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम,  
1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधि-  
सूचना सं० 226/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 15 जुलाई, 1977  
में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के प्रथम परन्तुक में,—

(क) खंड (iv) में, “धोती, साड़ी”, “लॉन्ग क्लॉथ (लट्टा)”, “कमीज  
का कपड़ा” या “ड्रिल” के विवरण के अनुरूप हैं” शब्दों के  
स्थान पर, “नियंत्रित धोती”, “नियंत्रित साड़ी”, “नियंत्रित लॉन्ग  
क्लॉथ (लट्टा)”, “नियंत्रित कमीज का कपड़ा” या “नियंत्रित  
ड्रिल” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (v) में, “ड्रिल की दशा में” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी  
ड्रिल, जो ‘नियंत्रित ड्रिल’ के विवरण के अनुरूप हैं, की दशा  
में” शब्द रखे जाएंगे।

**G.S.R. 659 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-  
rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read  
with sub-section (3) of Section 3 of the Additional Duties of  
Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957),  
the Central Government hereby makes the following further  
amendments in the notification of the Government of India  
in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 226/  
77-Central Excises, dated the 15th July, 1977, namely:—

In the said notification, in the first proviso,—

(a) in clause (iv), for the words “which answer to the  
description of ‘Dhoti’”, “Saree”, “Long Cloth”,  
“Shirting” or “Drill””, the words “which answer to the  
description of ‘Controlled Dhoti’, ‘Controlled Saree’,  
‘Controlled Long Cloth’, ‘Controlled Shirting’ or ‘Con-  
trolled Drill’” shall be substituted;

(b) in clause (v), for the words “in the case of Drill”,  
the words “in the case of Drill which answers to  
the description of ‘Controlled Drill’” shall be substi-  
tuted.

[Notification No. 301/79-CE/F. No. 51/14/78-CX 2]  
S. KAK, Under Secy.

